

# Exo

## Chapter 39

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 וַיִּמְרוּ וַתְּכַלֵּת וְהָאֲרָגְמָן וְתוֹלְעַת הַשָּׁנִי עָשָׂו בְּגָדֵי-שָׂרָר שְׂרָר לְשָׂרָת בְּקִדְשׁ  
 और-से नीले और-बैजनी और-कीड़े-की लाल बनाए वस्त्र सेवा-के सेवा-करने-को पवित्रस्थान-में

[H6944](#)

[H8334](#)

[H8278](#)

[H8144](#)

[H0713](#)

[H8504](#)

2 וַיַּעֲשֵׂוּ אֶת-בְּגָדֵי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר לְאַהֲרֹן כַּאֲשֶׁר צָוָה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה:  
 और-बनाए को वस्त्र पवित्र-के जो आज़ा-दी जैसा कपड़ा-दी यहोवा-ने को मूसा

[H4872](#)

[H0853](#)

[H3068](#)

[H6680](#)

[H0175](#)

[H6944](#)

[H0853](#)

कारिगरों ने नीले, लाल और बैजनी कपड़ों के विशेष वस्त्र याजकों के लिए बनाए जिन्हें वे पवित्र स्थान में सेवा के समय पहनेगे। उन्होंने हारून के लिए भी वैसे ही विशेष वस्त्र बनाये जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

2 וַיַּעֲשֵׂוּ אֶת-הָאֶפֶד זָהָב תְּכַלֵּת וְאֲרָגְמָן וְתוֹלְעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מְשֻׁרָר:  
 और-बनाया को एपोद सोना नीला और-काटे और-बैजनी और-कीड़े-की और-सन बटे-हुए

[H7806](#)

[H8144](#)

[H0713](#)

[H8504](#)

[H2091](#)

[H0646](#)

[H0853](#)

उन्होंने एपोद सन के उत्तम रेशों और नीले, लाल और बैजनी कपड़े से बनाया।

3 וַיִּרְקְעוּ אֶת-כַּתְּפֵי פִתְיָיִם הַזָּהָב וְקַצְאִין לְעִשׂוֹת בְּתוֹךְ תְּכַלֵּת וּבִתְוֹךְ הָאֲרָגְמָן  
 और-पीटे को पतरे सोने-के और-काटे और-बैजनी बचाने-को बीच-में बीच-के और-बीच-में

[H0713](#)

[H8432](#)

[H8504](#)

[H8432](#)

[H6616](#)

[H7112](#)

[H2091](#)

[H0853](#)

[H7554](#)

וּבִתְוֹךְ תוֹלְעַת הַשָּׁנִי וּבִתְוֹךְ מַעֲשָׂהּ חֹשֶׁב:  
 और-बीच-में लाल-के और-बीच-में कारीगर-का बनावट-का सन-के

[H2803](#)

[H4639](#)

[H8432](#)

[H8144](#)

[H8432](#)

(उन्होंने सोने को बारीक पट्टियों के रूप में पीटा और तब उन्होंने उसे लम्बे धागो के रूप में काटा। उन्होंने सोने को नीले, बैजनी, लाल कपड़ों और सन के उत्तम रेशों में बुना। इसे निपुणता के साथ किया गया।)

4 כַּתְּפֵי טָוֵךְ עָשָׂו-לוֹ חֲבֵרַת עַל-שְׁנֵי קַצְוֹתָיו (קַצְוֹתָיו) חֲבֵרַת עַל-שְׁנֵי קַצְוֹתָיו  
 टुकड़े बनाए उसके-लिए उसके-लिए जोड़नेवाले पर दोनों उसके-सिरों उसके-सिरों

[H2266](#)

[H7098](#)

[H7117](#)

[H8147](#)

[H2266](#)

[H3802](#)

उन्होंने एपोद के कंधों की पट्टियाँ बनाई। और कंधे की इन पट्टियों को एपोद के कंधे पर टाँका।

5 וַחֲשֹׁב וְאֶפְדָּתוֹ אֲשֶׁר עָלָיו מִמְנוּ הוּא כְּמַעֲשֵׂהָ זָהָב תְּכַלֵּת וְאֲרָגְמָן  
 और-पट्टी उसके-एपोद-की जो उस-पर उसी-से वह उसकी-बनावट-की नीला सोना

[H0713](#)

[H8504](#)

[H2091](#)

[H4639](#)

[H1931](#)

[H0642](#)

[H2805](#)

וְתוֹלְעַת הַשָּׁנִי וְשֵׁשׁ מְשֻׁרָר אֶת-מֹשֶׁה:  
 और-कीड़े-की लाल और-सन बटा-हुआ मूसा को यहोवा-ने आज़ा-दी जैसा

[H4872](#)

[H0853](#)

[H3068](#)

[H6680](#)

[H7806](#)

[H8144](#)

पट्टका उसी प्रकार बनाया गया था। यह एपोद से एक ही इकाई के रूप में जोड़ दिया गया। यह सोने के तार, सन के उत्तम रेशों, नीला, लाल और बैजनी कपड़े से वैसा ही बना जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

6 וַיַּעֲשֵׂוּ אֶת-אֲבְנֵי הַשֹּׁהַם מִסַּבָּת מִסַּבָּצַת זָהָב מְשֻׁבָּצָת פְּתוּחֵי חוֹמָם עַל-  
 और-बनाए को पत्थर सुलेमानी-के जड़े-हुए खानों-में खानों-में खूदे-हुए खूदे-से खूदाई-से मुहर-की पर

[H2368](#)

[H6603](#)

[H2091](#)

[H4865](#)

[H4142](#)

[H7718](#)

[H0068](#)

[H0853](#)

וְיִשְׂרָאֵל: בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שְׂמוֹת  
 इस्राएल-के पुत्रों नामों

[H3478](#)

[H8034](#)

कारीगरों ने रत्नों को सोने को पट्टी में जड़ा। उन्होंने इस्राएल के पुत्रों के नाम रत्नों पर लिखे।

צָוּה	כְּאִשֶּׁר	יִשְׂרָאֵל	לְבָנַי	זְכוֹרוֹן	אֲבֵנֵי	הָאֶפֶד	כְּתֻבֹת	עַל	אֲתָם	וַיִּשָּׂם	7
आज्ञा-दी	जैसा	इस्राएल-के	पुत्रों-के-लिए	स्मरण-के	पत्थर	एपोद-के	टुकड़ों	पर	उन्हें	और-रखा	
<a href="#">H6680</a>		<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H2146</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H0646</a>	<a href="#">H3802</a>		<a href="#">H0853</a>		

וַיְהִי אֵת מֹשֶׁה: פ  
— मूसा को यहोवा-ने  
[H4872](#) [H0853](#) [H3068](#)

तब उन्होंने रत्नों को एपोद के कंधे के पेबन्द पर लगाया। हर एक रत्न इस्राएल के बारह पुत्रों में से एक-एक का प्रतिनिधित्व करता था। यह वैसा ही किया गया जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

וַאֲרָמֹן	תְּכֵלֶת	זָהָב	אֶפֶד	כַּמְעֵטָה	חָשָׁב	מַעֲשֵׂה	הַחֲשֵׁן	אֵת	וַיַּעַשׂ	8
और-बैजनी	नीला	सोना	एपोद	जैसे-बनावट-का	कारीगर-की	बनावट-की	चपरास	को	और-बनाया	
<a href="#">H0713</a>	<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H0646</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H2803</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H2833</a>	<a href="#">H0853</a>		

וַתּוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מִשְׁזָר: —  
बटा-हुआ और-सन लाल और-कीड़े-की  
[H7806](#) [H8144](#)

तब उन्होंने सीनाबन्द बनाया। यह वही निपुणता के साथ बनाया गया था। सीनाबन्द एपोद की तरह बनाया गया था। यह सोने के तार, सन के उत्तम रेशों, नीला, लाल और बैजनी कपड़े का बनाया गया था।

דוֹהֵרָא	רְחֹבֵוֹ	וְזֹרֵת	אֶרְכֹּוֹ	זֹרֵת	הַחֲשֵׁן	אֵת	עָשָׂו	כְּפֹלֵה	הָיָה	רְבִיעֵה	9
दोहरा	उसकी-चौड़ाई	और-बालिशत	उसकी-लंबाई	बालिशत	चपरास	को	बनाया	दोहरा	था	चौकोर	
<a href="#">H3717</a>	<a href="#">H7341</a>	<a href="#">H2239</a>	<a href="#">H0753</a>	<a href="#">H2239</a>	<a href="#">H2833</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3717</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7251</a>	

सीनाबन्द वर्गाकार दोहरा तह किया हुआ था। यह नौ इंच लम्बा और नौ इंच चौड़ा था।

הָאֶחָדָה	הַטֹּוֹר	וּבְרִיקָתָהּ	פְּטָרָהּ	אֶדָם	טֹוֹר	אֲבָן	טֹוֹרֵי	אַרְבַּעָה	בֹּוֹ	וַיִּמְלְאוּ	10
पहली	पंक्ति	और-पीतमणि	पुखराज	माणिक	पंक्ति	पत्थरों-की	पंक्तियाँ	चार	उसमें	और-जड़े	
<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H2905</a>		<a href="#">H6357</a>	<a href="#">H0124</a>	<a href="#">H2905</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H2905</a>	<a href="#">H0702</a>		<a href="#">H4390</a>	

तब कारीगर ने इस पर सुन्दर रत्नों की पक्तियाँ जड़ीं। पहली पंक्ति में एक लाल, एक पुखराज और एक मर्कतमणि थी।

וְהַטֹּוֹר וְהַטֹּוֹר: וְהַטֹּוֹר: וְהַטֹּוֹר: וְהַטֹּוֹר: —  
और-पंक्ति और-पंक्ति और-पंक्ति और-पंक्ति  
[H3095](#) [H5601](#) [H5306](#) [H8145](#) [H2905](#)

दूसरी पंक्ति में एक फिरोज़ा, एक नीलम तथा एक पन्ना था।

וְהַטֹּוֹר	וְהַטֹּוֹר	וְהַטֹּוֹר	וְהַטֹּוֹר	וְהַטֹּוֹר	וְהַטֹּוֹר	וְהַטֹּוֹר	וְהַטֹּוֹר	וְהַטֹּוֹר	וְהַטֹּוֹר	12
और-पंक्ति	और-पंक्ति	और-पंक्ति	और-पंक्ति	और-पंक्ति	और-पंक्ति	और-पंक्ति	और-पंक्ति	और-पंक्ति	और-पंक्ति	
<a href="#">H0306</a>	<a href="#">H7618</a>	<a href="#">H3958</a>	<a href="#">H7992</a>	<a href="#">H2905</a>						

तीसरी पंक्ति में एक धूम्रकान्त, अकीक और एक याकूत था।

בְּמִלְאָתָם:	זָהָב	מִשְׁבָּצוֹת	מוֹסָבֵת	וַיִּשָּׂם	שָׁהָם	תְּרִשִׁישׁ	הַרְבִּיעִי	וְהַטֹּוֹר	13
उनकी-जड़ाई-में	सोने-के	खानों-में	जड़े-हुए	और-यशब	सुलेमानी	फिरोज़ा	चौथी	और-पंक्ति	
<a href="#">H4396</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H4865</a>	<a href="#">H4142</a>	<a href="#">H3471</a>	<a href="#">H7718</a>	<a href="#">H8658</a>	<a href="#">H7243</a>	<a href="#">H2905</a>	

चौथी पंक्ति में एक लहसुनिया, एक गोमेदक मणि, और एक कपिश मणि थी। ये सभी रत्न सोने में जड़े थे।

פְּתוּחֵי	שְׁמֹתָם	עַל-	עֲשָׂרָה	שְׁתֵּים	הֶגְדָּה	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי-	שְׁמֹת	עַל-	וְהָאֲבָנִים	14
खुदाई-से	उनके-नामों	पर	बारह	बारह	वे	इस्राएल-के	पुत्रों	नामों	पर	और-पत्थर	
<a href="#">H6603</a>	<a href="#">H8034</a>		<a href="#">H6240</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H2007</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H8034</a>		<a href="#">H0068</a>	

וְהָאֲבָנִים: עַל-שְׁמוֹ: עַל-שְׁמוֹ: —  
गोत्र बारह बारह-के-लिए उसके-नाम पर पर प्रत्येक मुहर-की  
[H7626](#) [H6240](#) [H8147](#) [H8034](#) [H0376](#) [H2368](#)



तब उन्होंने एक नीली पट्टी का उपयोग किया और सीनाबन्द के छल्लों को एपोद छल्लों से बाँधा। इस प्रकार सीनाबन्द पेटी के समीप लगा रहा। यह गिर नहीं सकता था। उन्होंने यह सब चीज़ें यहोवा के आदेश के अनुसार कीं।

22	וַיַּעַשׂ אֶת-כּוֹגֵג	מַעֲשֵׂה	אָרָג	כָּלִיל	תְּכֵלֶת:
	और-बनाया	बनावट-की	बुनकर-की	पूरा	नीले-का
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0646</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H3632</a>	<a href="#">H8504</a>

तब उन्होंने एपोद के नीचे का चोगा बनाया। उन्होंने इसे नीले कपड़े से बनाया। यह एक निपुण व्यक्ति का काम था।

23	וּפִי-הַמַּעֲשֵׂי	בְּתוֹכוֹ	כְּפִי	תַּחְרָא	שֶׁפָּה	לְפִי	סָבִיב	לֹא	יִקְרַע:
	और-मुँह	उसके-बीच-में	जैसे-मुँह	कवच-का	किनारी	उसके-मुँह-को	चारों-ओर	नहीं	फटे
	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H4598</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H8473</a>	<a href="#">H8193</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7167</a>

चोगे के बीचोंबीच एक छेद था। इस छेद के चारों ओर कपड़े की गोद लगी थी। यह गोद छेद को फटने से बचाती थी।

24	וַיַּעַשׂוּ עַל-שׁוּלֵי	הַמַּעֲשֵׂי	רְמוֹנֵי	תְּכֵלֶת	וְאֲרָגָן	וְתוֹלַעַת	שָׁנִי	מְשֻׁר:
	और-बनाए	चोगे-के	अनार	नीले-के	और-बैजनी	और-कीड़े-की	लाल	बटे-हुए
	<a href="#">H7757</a>	<a href="#">H4598</a>	<a href="#">H7416</a>	<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H0713</a>	<a href="#">H7806</a>	<a href="#">H8144</a>	<a href="#">H7806</a>

तब उन्होंने सन के उत्तम रेशों, नीले, लाल और बैंगनी कपड़े से फूँदने बनाए जे अनार के आकार के नीचे लटके थे। उन्होंने इन अनारों को चोगे के नीचे के सिरे पर चारों ओर बाँधा।

25	וַיַּעַשׂוּ פְּעֻמּוֹת	זָהָב	טְהוֹר	וַיִּתְּנוּ	אֶת-	הַפְּעֻמָּנוֹת	בְּתוֹךְ	הָרְמוֹנִים	עַל-	שׁוּלֵי
	और-बनाई	सोने-की	शुद्ध	और-लगाई	को	घंटियाँ	बीच-में	अनारों-के	पर	घेरों
	<a href="#">H6472</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H2889</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6472</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H7416</a>	<a href="#">H7416</a>	<a href="#">H7757</a>

הַמַּעֲשֵׂי	סָבִיב	בְּתוֹךְ	הָרְמוֹנִים:
चोगे-के	चारों-ओर	बीच-में	अनारों-के
<a href="#">H4598</a>	<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H7416</a>

तब उन्होंने शुद्ध सोने की घंटियाँ बनाई। उन्होंने अनारों के बीच में चोगे के नीचे के सिरे के चारों ओर इन्हें बाँधा।

26	פְּעֻמָּן	וְרֵמֹן	פְּעֻמָּן	וְרֵמֹן	עַל-	שׁוּלֵי	הַמַּעֲשֵׂי	סָבִיב	לְשֵׁרֵת	כַּאֲשֶׁר	צְנִיָּה
	घंटी	और-अनार	घंटी	और-अनार	पर	घेरों	चोगे-के	चारों-ओर	सेवा-करने-को	जैसा	आज्ञा-दी
	<a href="#">H6472</a>	<a href="#">H7416</a>	<a href="#">H6472</a>	<a href="#">H7416</a>	<a href="#">H8334</a>	<a href="#">H7757</a>	<a href="#">H4598</a>	<a href="#">H5439</a>	<a href="#">H8334</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H6680</a>

יְהוָה	אֶת-	מֹשֶׁה:	ס
यहोवा-ने	को	मूसा	—
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4872</a>	

लबादे के नीचे के सिरे के चारों ओर अनार और घंटियाँ थी। हर एक अनारों के मध्य घंटी थी। याजक उस चोगे को तब पहनता था जब वह यहोवा की सेवा करता था, जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

27	וַיַּעַשׂוּ אֶת-הַכֹּתֶנֶת	שֵׁשׁ	מַעֲשֵׂה	אָרָג	לְאַהֲרֹן	וּלְבָנָיו:
	और-बनाई	सन-के	बनावट-की	बुनकर-की	हारून-के-लिए	और-उसके-पुत्रों-के-लिए
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3801</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H0707</a>	<a href="#">H0175</a>	

कारीगरों ने हारून और उसके पुत्रों के लिये लबादे बनाए। ये लबादे सन के उत्तम रेशों के थे।

28	וְאֶת-הַמְצַנְפֹּת	שֵׁשׁ	וְאֶת-	פְּאָרֵי	הַמְּנַבְּעֹת	שֵׁשׁ	וְאֶת-	מִכְנָסֵי	הַכֹּהֵן	שֵׁשׁ
	और-को	सन-की	और-को	शोभा	टोपियों-का	सन-का	और-को	जाधिये	सन-के	सन
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4701</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6287</a>	<a href="#">H4021</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4370</a>	<a href="#">H0906</a>	

מְשֻׁר:  
बटे-हुए  
[H7806](#)

और कारीगरों के सन के उत्तम रेशों के साफ़े बनाए। उन्होंने सिर की पगड़ियाँ और अधोवस्त्र भी बनाए। उन्होंने इन चीज़ों को सन के उत्तम रेशों का बनाया।

רָקַם	מִעֲשֵׂהָ	שָׁנִי	וְתוֹלַעַת	וְאַרְגָּמָן	וְתִכְלֵת	מְשֻׁר	שֵׁשׁ	הָאֲבֹנֹט	וְאֶת־	29
कढ़ाई-की	बनावट-की	लाल	और-कीड़े-की	और-बैजनी	और-नीला	बटा-हुआ	सन	पटका	और-को	
<a href="#">H7551</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H8144</a>		<a href="#">H0713</a>	<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H7806</a>		<a href="#">H0073</a>	<a href="#">H0853</a>	

וְ	מֹשֶׁה:	אֶת־	יְהוָה	צִוָּה	כַּאֲשֶׁר
—	मूसा	को	यहोवा-ने	आज्ञा-दी	जैसा
	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6680</a>	

तब उन्होंने पटुके को सन के उत्तम रेशों, नीले, बैजनी और लाल कपड़े से बनाया। कपड़े में काढ़ने काढ़े गये। ये चीज़ें वैसी ही बनाई गईं जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

פְּתוּחַ	מִכְתָּב	עָלָיו	וַיִּכְתְּבוּ	טְהוֹר	זָהָב	הַקָּדָשׁ	גִּזְרֵי	צִיָּן	אֶת־	וַיַּעֲשֵׂהוּ	30
खुदाई-की	लेख	उस-पर	और-लिखे	शुद्ध	सोने-का	पवित्रता-का	मुकुट	टीका	को	और-बनाई	
<a href="#">H6603</a>	<a href="#">H4385</a>		<a href="#">H3789</a>	<a href="#">H2889</a>	<a href="#">H2091</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H5145</a>		<a href="#">H0853</a>		

חֹתָם	קָדָשׁ	לְיְהוָה:
मुहर-की	पवित्र	यहोवा-के-लिए
<a href="#">H2368</a>	<a href="#">H6944</a>	<a href="#">H3068</a>

तब उन्होंने सिर पर बाँधने के लिये सोने का पतरा बनाया। उन्होंने सोने पर ये शब्द लिखे: यहोवा के लिए पवित्र।

יְהוָה	צִוָּה	כַּאֲשֶׁר	מִלְּמַעְלָה	הַמִּצְנֶפֶת	עַל־	לָהֶט	תִּכְלֵת	פְּתִיל	עָלָיו	וַיִּתְּנוּ	31
यहोवा-ने	आज्ञा-दी	जैसा	ऊपर-से	पगड़ी	पर	लगाने-को	नीले-की	डोरी	उस-पर	और-लगाई	
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6680</a>		<a href="#">H4605</a>	<a href="#">H4701</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H8504</a>	<a href="#">H6616</a>		<a href="#">H5414</a>	

וְ	מֹשֶׁה:	אֶת־
—	मूसा	को
	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>

तब उन्होंने पत्रे से एक नीली पट्टी बाँधी और उसे पगड़ी पर इस प्रकार बाँधा जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

כָּכֹל	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	וַיַּעֲשֵׂהוּ	מוֹעֵד	אֶהָל	מִשְׁכַּן	עֲבֹדָת	כָּל־	וַיִּתְּכֵל	32
सब-के-अनुसार	इस्राएल-के	पुत्रों-ने	और-किया	मिलापवाले	तंबू	निवास-का	काम	सब	और-पूरी-हुई	
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3478</a>			<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3615</a>	

וְ	עָשָׂה:	כֵּן	מֹשֶׁה	אֶת־	יְהוָה	צִוָּה	אֲשֶׁר
—	किया	वैसे	मूसा	को	यहोवा-ने	आज्ञा-दी	जो
			<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6680</a>	

इस प्रकार मिलापवाले तंबू का सारा काम पूरा हो गया। इस्राएल के लोगों ने हर चीज़ ठीक वैसी ही बनाई जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था।

קָרְסִיו	כָּלָיו	כָּל־	וְאֶת־	הָאֶהָל	אֶת־	מֹשֶׁה	אֶל־	הַמִּשְׁכָּן	אֶת־	וַיָּבִיאוּ	33
उसके-हुक	उसके-बर्तन	सब	और-को	तंबू	को	मूसा-के	पास	निवास	को	और-लाए	
<a href="#">H7165</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4908</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0935</a>	

וְ	וַיִּתְּנוּ:	וַעֲמָדָיו	בְּרִיחָיו	(	וְ	בְּרִיחָיו	)	וְ	קָרְסָיו
—	और-उसकी-कुर्सियाँ	और-उसके-खंभे	उसके-बेंड़े	उसके-बेंड़े	उसके-बेंड़े	उसके-बेंड़े	उसके-तख्ते		
	<a href="#">H0134</a>	<a href="#">H5982</a>	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H1280</a>	<a href="#">H7175</a>		

तब उन्होंने मिलापवाला तंबू मूसा को दिखाया। उन्होंने उसे तंबू और उसमें की सभी चीज़ें दिखाई। उन्होंने उसे छल्ले, तख्ते, छड़ें खम्भे तथा आधार दिखाए।

פְּרֹכֶת	וְאֶת־	הַתְּחָשִׁים	עֲרֹת	מִכְסָּה	וְאֶת־	הַמְּאֻדָּמִים	הָאֵילִם	עוֹרֹת	מִכְסָּה	וְאֶת־	34
परदा	और-को	तखश-की	खालों	आवरण	और-को	लाल-रंगी-हुई	मेंढों-की	खालों	आवरण	और-को	
<a href="#">H6532</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8476</a>	<a href="#">H5785</a>	<a href="#">H4372</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0119</a>		<a href="#">H5785</a>	<a href="#">H4372</a>	<a href="#">H0853</a>	

וְ	הַמְּסָנֵי:
—	परदे-का
	<a href="#">H4539</a>

उन्होंने उसे तंबू का आच्छादन दिखाया जो लाल रंगी हुई भेड़ की खाल का बना था और उन्होंने वह आच्छादन दिखाया जो सुइसों के चमड़े का बना था और उन्होंने वह कनात दिखाई जो प्रवेश द्वार से सब से अधिक पवित्र स्थान को ढकती थी।

35 אֶת־ אֶרֶן הָעֵדוּת וְאֶת־ בְּרִיּוֹ וְאֶת־ הַכַּפֹּרֶת: 35  
 को संदूक साक्षी-का और-को उसके-डंडे और-को प्रायश्चित्त  
[H0727](#) [H5715](#) [H0853](#) [H0905](#) [H0853](#) [H3727](#)

उन्होंने मूसा को साक्षीपत्र का सन्दूक दिखाया। उन्होंने सन्दूक को ले जाने वाली बल्लियाँ तथा सन्दूक को ढकने वाले ढक्कन को दिखाया।

36 אֶת־ הַשְּׁלֶחָן אֶת־ כָּל־ כִּלְיוֹ וְאֶת־ לֶחֶם הַפָּנִים: 36  
 को मेज़ की सब के-बर्तन उसके-बर्तन और-को रोटी भेंट-की  
[H0853](#) [H7979](#) [H0853](#) [H3605](#) [H3627](#) [H3899](#) [H6440](#)

उन्होंने विशेष रोटी की मेज़ तथा उस पर रहने वाली सभी चीज़ें और साथ में विशेष रोटी मूसा को दिखायी।

37 אֶת־ הַמִּזְבֵּחַ הַשֵּׁנִי אֶת־ הַשֶּׁהֶרֶף אֶת־ גִּרְתֵּיהָ וְגִרְתֵּיהָ גֵּרְתֵּיהָ וְאֶת־ כָּל־ כִּלְיֶיהָ וְאֶת־ הַמְּאֹרֶר: 37  
 को दीवट शुद्ध को उसके-दीपक दीपक कतार-के और-को और-को उसके-बर्तन तेल ज्योति-का  
[H0853](#) [H4501](#) [H2889](#) [H0853](#) [H3605](#) [H3627](#) [H0853](#) [H4634](#) [H3974](#) [H8081](#)

उन्होंने मूसा को शुद्ध सोने का दीपाधार और उस पर रखे हुए दीपकों को दिखाया। उन्होंने तेल और अन्य सभी चीज़ें मूसा को दिखाई, जिनका उपयोग दीपकों के साथ होता था।

38 אֶת־ מִזְבַּח הַזָּהָב וְאֶת־ שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְאֶת־ קִטְרֹת הַסַּמִּים וְאֶת־ מִסְדָּ דְּפֶתַח הָאֹהֶל: 38  
 को वेदी सोने-की तेल अभिषेक-का और-को और-को सुगंधों-का धूप द्वार-का तंबू-का  
[H0853](#) [H4196](#) [H2091](#) [H0853](#) [H8081](#) [H0853](#) [H7004](#) [H5561](#) [H0853](#) [H4539](#) [H6607](#) [H0168](#)

उन्होंने उसे सोने की वेदी, अभिषेक का तेल, सुगन्धित धूप और तम्बू के प्रवेश द्वार को ढकने वाली कनात को दिखाया।

39 אֶת־ מִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת וְאֶת־ מַכְבַּר הַנְּחֹשֶׁת אֶת־ לֹוּ אֶת־ בְּרִיּוֹ וְאֶת־ כָּל־ אֶת־ הַנְּחֹשֶׁת וְאֶת־ קַנּוֹ: 39  
 को वेदी काँसे-की और-को जाली काँसे-की जो उसकी और-को उसके-डंडे और-को सब काँसे-की-कुर्सी  
[H0853](#) [H4196](#) [H0853](#) [H3595](#) [H0853](#) [H3627](#) [H4345](#) [H0853](#) [H0905](#) [H0853](#) [H3605](#) [H3653](#)

उन्होंने काँसे की वेदी और काँसे की जाली को दिखाया। उन्होंने वेदी को ले जाने के लिये बनी बल्लियों को भी मूसा को दिखाया। और उन्होंने उन सभी चीज़ों को दिखाया जो वेदी पर काम में आती थी। उन्होंने चिलमची और उसके नीचे का आधार दिखाया।

40 אֶת־ קַלְעֵי הַחֹצֵר וְאֶת־ עֲמֻדֶיהָ אֶת־ אֲרָנֶיהָ וְאֶת־ הַמִּסָּדָה וְאֶת־ לְשֹׁעַר הָאֹהֶל: 40  
 को परदे के आँगन-के को उसके-खंभे और-को और-को उसकी-कुर्सियाँ और-को परदा फाटक-के-लिए तंबू-के-लिए  
[H0853](#) [H4340](#) [H5982](#) [H0853](#) [H0134](#) [H0853](#) [H4539](#) [H8179](#) [H0853](#) [H5656](#) [H3627](#) [H3605](#) [H4908](#) [H0168](#) [H4150](#)

उन्होंने आँगन के चारों ओर की कनातों को, खम्भों और आधारों के साथ मूसा को दिखाया। उन्होंने उसको उस कनात को दिखाया जो आँगन के प्रवेशद्वार को ढके थी। उन्होंने उसे रस्सियाँ और काँसे की तम्बू वाली खूंटियाँ दिखाई। उन्होंने मिलापवाले तम्बू में उसे सभी चीज़ें दिखाई।

41  
 אֶת־ בְּנֵי־ הַשָּׂרָדַר לְשָׂרָתָּ בְּקִרְשׁ אֶת־ בְּנֵי־ הַקֹּדֶשׁ לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן  
 को वस्त्र सेवा-करने-को सेवा-के वस्त्र को याजक  
[H0853](#) [H8278](#) [H8334](#) [H6944](#) [H0853](#) [H0175](#) [H3548](#)

וְאֶת־ בְּנֵי־ הַקֹּדֶשׁ לְכַהֵן :  
 और-को वस्त्र उसके-पुत्रों-के याजकाई-करने-को  
[H0853](#) [H3547](#)

तब उन्होंने मूसा को पवित्र स्थान में सेवा करने वाले याजकों के लिये बने वस्त्रों को दिखाया। वे उन वस्त्रों को तब पहनते थे जब वे याजक के रूप में सेवा करते थे।

42  
 כָּל־ אֲשֶׁר־ צָנָה יְהוָה אֶת־ מֹשֶׁה בֵּן־ יִשְׂרָאֵל אֶת  
 सब-के-अनुसार जो आज्ञा-दी यहोवा-ने मूसा को इस्राएल-के पुत्रों-ने किया वैसे  
[H3605](#) [H6680](#) [H3068](#) [H0853](#) [H4872](#) [H3478](#) [H0853](#)

כָּל־ הָעֵבֶרֶתָּ :  
 सब काम  
[H3605](#) [H5656](#)

यहोवा ने मूसा को जैसा आदेश दिया था इस्राएल के लोगों ने ठीक सभी काम उसी तरह किया।

43  
 וַיִּרְאֵ וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה וְהָיָה  
 और-देखा मूसा-ने और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा  
[H7200](#) [H4872](#) [H0853](#) [H3605](#) [H4399](#) [H2009](#) [H0853](#) [H6680](#) [H3068](#)

וְהָיָה וְהָיָה :  
 और-आशिष-दिया और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा और-देखा  
[H1288](#) [H0853](#) [H4872](#)

मूसा ने सभी कामों को ध्यान से देखा। मूसा ने देखा कि सब काम ठीक उसी प्रकार हुआ जैसा यहोवा ने आदेश दिया था। इसलिए मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया।